



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012020-215598
CG-DL-E-20012020-215598

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253]
No. 253]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 2020/पौष 27, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 2020/PAUSHA 27, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2020

का.आ. 264(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 (अ) के उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, 1956 (1956 का 48) (बाद में कहा गया अधिनियम के रूप में जाना जाता है), केंद्र सरकार इस प्रकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एसओ में भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है। का.आ. संख्या 6175 (अ) दिनांक 11 दिसंबर, 2018 भारत के राजपत्र में असाधारण भाग द्वितीय अनुभाग -3, उपधारा (ii) 11 दिसंबर, 2018 अर्थात् प्रकाशित किया गया।

अधिसूचना में अनुसूची में:

चूजाचेनब्लौक

- (क) एसएल संख्या 30:- प्लॉट संख्या 1619, क्षेत्र 0.0900, 0.0620 के रूप में पढ़ा जा सकता है।
(ख) एसएल संख्या 31:- प्लॉट संख्या 1620, क्षेत्र 0.3360, 0.3540 के रूप में पढ़ा जा सकता है।
(ग) एसएल संख्या 36:- प्लॉट संख्या 1625 को 1625/5835 के रूप में पढ़ा जा सकता है
(घ) एसएल संख्या 39:- प्लॉट संख्या 1615, क्षेत्र 0.1740 को 1615= 0.0210 के रूप में पढ़ा जा सकता है।
(i) अतिरिक्त प्लॉट संख्या 1615/6199, क्षेत्र को 0.1470 के रूप में पढ़ा जा सकता है।
(ii) अतिरिक्त प्लॉट संख्या 1615/6143, =0.0060 क्षेत्र के रूप में पढ़ा जा सकता है।

- (ड) एसएल संख्या 41:- प्लॉट संख्या 1618, क्षेत्र 0.0660, 0.0580 के रूप में पढ़ा जा सकता है।
- (च) एसएल संख्या 42:- प्लॉट संख्या 1600 और इसके क्षेत्र को सिक्किम सरकार के एसपीडीसी, के रूप में पढ़ा जा सकता है।
- (छ) एसएल संख्या 57:- प्लॉट संख्या 1410, क्षेत्र 0.0280 को 0.0220 के रूप में पढ़ा जा सकता है।
- (i) अतिरिक्त प्लॉट संख्या 1410/5806, क्षेत्र को 0.0060 के रूप में पढ़ा जा सकता है।
- (ज) एसएल संख्या 70:- प्लॉट संख्या 1391, क्षेत्र 0.0540 को 0.0460 के रूप में पढ़ा जा सकता है।
- (i) अतिरिक्त प्लॉट संख्या 1391/5702, क्षेत्र को 0.0080 के रूप में पढ़ा जा सकता है
- (झ) एसएल संख्या 71:- प्लॉट संख्या 1390, क्षेत्र 0.1920 को 0.0140 के रूप में पढ़ा जा सकता है।
- (i) अतिरिक्त प्लॉट संख्या 1390/6192, 0.0180 क्षेत्र के रूप में पढ़ा जा सकता है।
- (ii) अतिरिक्त प्लॉट संख्या 1390/6191, क्षेत्र को 0.0180 के रूप में पढ़ा जा सकता है।
- (iii) अतिरिक्त प्लॉट संख्या 1390/6190, क्षेत्र को 0.0780 के रूप में पढ़ा जा सकता है।
- (iv) अतिरिक्त प्लॉट संख्या 1390/5907, 0.0180 क्षेत्र के रूप में पढ़ा जा सकता है।
- (v) अतिरिक्त प्लॉट संख्या 1390/6196, क्षेत्र को 0.0080 के रूप में पढ़ा जा सकता है।
- (vi) अतिरिक्त प्लॉट संख्या 1390/6189, 0.0380 क्षेत्र के रूप में पढ़ा जा सकता है
- (ञ) एसएल संख्या 73:- प्लॉट संख्या 720, क्षेत्र 0.0600 को 0.0280 के रूप में पढ़ा जा सकता है।
- (i) अतिरिक्त प्लॉट संख्या 720/2703, क्षेत्र को 0.0320 के रूप में पढ़ा जा सकता है।
- (ट) एसएल संख्या 88 :- प्लॉट संख्या 1481, क्षेत्र 0.0900 को 0.0260 के रूप में पढ़ा जा सकता है।
- (i) अतिरिक्त प्लॉट संख्या 1481/5347, क्षेत्र को 0.0320 के रूप में पढ़ा जा सकता है।
- (ii) अतिरिक्त प्लॉट संख्या 1481/5052, 0.0320 क्षेत्र के रूप में पढ़ा जा सकता है।
- (ठ) एसएल संख्या 170:- प्लॉट संख्या 1597/5979 को 1597/5978 के रूप में पढ़ा जा सकता है
- (ड) एसएल संख्या 172:- प्लॉट संख्या 1604 और इसके क्षेत्र को एसपीडीसी, सिक्किम सरकार के रूप में पढ़ा जा सकता है।
- (ढ) एसएल संख्या 176:- प्लॉट संख्या 1597/5989, क्षेत्र 0.1100, 0.0960 के रूप में पढ़ा जा सकता है।
- (ण) एसएल संख्या 177:- प्लॉट संख्या 1596 / बी को 1596 के रूप में पढ़ा जा सकता है

लामाटेनब्लौक

- (क) एसएल संख्या 46:- प्लॉट संख्या 571/ बी, 571 के रूप में पढ़ा जा सकता है।
- (ख) एसएल संख्या 47:- प्लॉट संख्या 571 / ए, क्षेत्र 571/1154, 0.0600 के रूप में पढ़ा जा सकता है।
- (i) अतिरिक्त प्लॉट संख्या 571 / सी, 571/1154, 0.0600 के रूप में पढ़ा जा सकता है।

दलापचंद ब्लौक

- (क) एसएल संख्या 11:- प्लॉट संख्या 151 / ए को 151/3307 के रूप में पढ़ा जा सकता है।

(ख) एसएल संख्या 23: - प्लॉट संख्या 151 / बी को 151/3317 के रूप में पढ़ा जा सकता है।

(ग) एसएल संख्या 31: - प्लॉट संख्या 68 / ए को 68 के रूप में पढ़ा जा सकता है।

(घ) एसएल संख्या 32: - प्लॉट संख्या 68 / बी को 68/5162 के रूप में पढ़ा जा सकता है।

(ङ) एसएल संख्या 33: - प्लॉट संख्या 69 / बी को 69/5163 के रूप में पढ़ा जा सकता है।

[फा.सं. NHIDCL/SIKKIM/NH-717B/Rhenock-Rolep/LA/2016-17/3A/Corr.]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, 16th January, 2020

S.O. 264(E)—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways S.O. No. 6175 (E) dated 11 December 2018 published in the Gazette of India Extraordinary Part (II) section 3, sub section (II) 11 December 2018, namely.

In the schedule to the said notification:

CHUJACHEN BLOCK

- (a) SL No. 30:- Plot No. 1619, area 0.0900 may be read as 0.0620
- (b) SL No. 31:- Plot No 1620, area 0.3360 may be read as 0.3540
- (c) SL No. 36:- Plot No. 1625 may be read as 1625/5835
- (d) SL No 39:- Plot No 1615, area 0.1740 may be read as 1615=0.0210
 - (i) Additional Plot No 1615/6199, area may be read as =0.1470
 - (ii) Additional Plot No 1615/6143, area may be read as=0.0060
- (e) SL No 41:- Plot No 1618, area 0.0660 may be read as 0.0580
- (f) SL No 42:- Plot No 1600 and its area may be read as SPDC, Govt of Sikkim
- (g) SL No 57:- Plot No 1410, area 0.0280 may be read as =0.0220
 - (i) Additional Plot No 1410/5806, may be read as area=0.0060
- (h) SL No 70:- Plot No 1391, area 0.0540 may be read as=0.0460
 - (i) Additional Plot No 1391/5702, area may be read as =0.0080
- (j) SL No 71:- Plot No 1390, area 0.1920 may be read as=0.0140
 - (i) Additional Plot No 1390/6192, area maybe read as =0.0180
 - (ii) Additional Plot No 1390/6191, area may be read as =0.0180
 - (iii) Additional Plot No 1390/6190, area may be read as = 0.0780
 - (iv) Additional Plot No 1390/5907, area may be read as =0.0180
 - (v) Additional Plot No 1390/6196, area may be read as =0.0080
 - (vi) Additional Plot No 1390/6189, area may be read as =0.0380
- (k) SL No 73:- Plot No 720, area 0.0600 may be read as =0.0280
 - (i) Additional Plot No 720/2703, area may be read as =0.0320
- (l) SL No 88:- Plot No 1481, area 0.0900 may be read as =0.0260
 - (i) Additional Plot No 1481/5347, area may be read as =0.0320
 - (ii) Additional Plot No 1481/5052, area may be read as = 0.0320
- (m) SL No 170:- Plot No 1597/5979 may be read as 1597/5978

- (n) SL No 172:- Plot No 1604 and its area may be read as SPDC, Govt of Sikkim
(o) SL No 176:- Plot No 1597/5989, area 0.1100 may be read as 0.0960
(p) SL No 177:- Plot No 1596/B may be read as 1596

LAMATEN BLOCK

- (a) SL No 46:- Plot No 571/B may be read as 571
(b) SL No 47:- Plot No 571/A, area may read as 571/1154= 0.0600
(i) Additional Plot No 571/C, may be read as 571/1154=0.0600

DALAPCHAND BLOCK

- (a) SL No 11:- Plot No 151/A may be read as 151/3307
(b) SL No 23:- Plot No 151/B may be read as 151/3317
(c) SL No 31:- Plot No 68/A may be read as 68
(d) SL No 32:- Plot No 68/B may be read as 68/5162
(e) SL No 33:- Plot No 69/B may be read as 69/5163

[F.No. NHIDCL/SIKKIM/NH-717B/Rhenock-Rolep/LA/2016-17/3A/Corr.]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.